



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13]

नई दिल्ली, मार्च 25—मार्च 31, 2007, शनिवार/चैत्र 4—चैत्र 10, 1929

No. 13]

NEW DELHI, MARCH 25—MARCH 31, 2007, SATURDAY/CHAITRA 4—CHAITRA 10, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक, श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 1995 के उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक, श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : -इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार चालक 1* (2007) विशेष श्रेणी	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसूचित	5000-150- 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7			8	9	10
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
11			12		
अचयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा			ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी I से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने स्टाफ कार चालक की श्रेणी I में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		
13			14		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :			लागू नहीं होता।		
1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय			—अध्यक्ष		
2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय			—सदस्य		
3. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली			—सदस्य		

1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	6* छह (2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण होने के अधीन रहते हुए अचयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा:- व्यावसायिक परीक्षण की स्कीम :	ऐसे स्टाफ कार चालकों श्रेणी-II की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने श्रेणी II में छह वर्ष की सेवा की है या जिन्होंने सामान्य श्रेणी और श्रेणी II में दोनों को मिला कर पन्द्रह वर्ष की सेवा की है, पात्र हैं।

1. अंग्रेजी अंकों और शब्दों को पढ़ने में समर्थ।
2. यातायात विनियमों का पूर्ण ज्ञान।
3. पेट्रोल और डीजल इंजन कार्यकरण का अच्छा ज्ञान तथा कमियों को ढूढ़ने और छोटी-छोटी चालन कमियों के सुधार करने में समर्थ हों।
4. कार्बुरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में समर्थ हों।

परीक्षण : उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षण।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता।
1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय —सदस्य	
3. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, —सदस्य	

1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार चालक श्रेणी-II	6* (छह) (2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण होने के अधीन रहते हुए
अचयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा :

व्यावसायिक परीक्षण की स्कीम :

1. अंग्रेजी अंकों और शब्दों को पढ़ने में समर्थ होना चाहिए ।
2. यातायात विनियमों का पूर्ण ज्ञान हो ।
3. कमियों को ढूढ़ने और छोटी-छोटी चालन मरम्मत को दूर करने में समर्थ हों ।
4. पहियों को बदलने और टायरों को ठीक रखने में समर्थ हों ।

परीक्षण : उपरोक्त आधार पर व्यावहारिक परीक्षण :

12

ऐसे सामान्य श्रेणी में स्टाफ कार चालकों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने स्टाफ कार चालक की सामान्य श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है ।

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन), गृह मंत्रालय —सदस्य
3. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, —सदस्य

14

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
स्टाफ कार चालक 6*(2007)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अन्नसूचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	25 वर्ष से अधिक नहीं	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।
सामान्य श्रेणी	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)				<p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।</p>

7	8	9	10
लागू नहीं होता	<p>आवश्यक : जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है ।</p> <p>--मोटर यांत्रिकीय ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-छोटी कमियों को ठीक करने में समर्थ हो ।</p> <p>--मोटर कार चालन का पिछले तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय : (i) 8वीं स्तर उत्तीर्ण ।</p> <p>(ii) होम गार्ड/सिविल रक्षा स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष सेवा की हो ।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
आमेलन/प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	<p>गृह मंत्रालय में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास चालन परीक्षण से क्षमता निर्धारण करने से मोटर कार चलाने के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में समूह 'घ' कर्मचारी जो सवार हरकारा के पद नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए पदधारियों में से जो स्तम्भ 8 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं ।</p> <p>“भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतिनियुक्त/पुनर्नियोजन”</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, पर विचार किया जाएगा । यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवर सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सचिवालय सुरक्षा संगठन) गृह मंत्रालय —सदस्य 3. अवर सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली —सदस्य 	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-42012/14/2007-प्रशा. II]

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : भारत के राजपत्र में गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक, श्रेणी I श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 1995 को सा.का.नि. सं. 491 तारीख 10 नवंबर, 1995 को प्रकाशित किए गए थे ।

930 9707-2

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th March, 2007

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules 1995, except as respects things done or omitted or to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Ministry of Home Affairs, namely :

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—They number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns (5) to (14) of the aforesaid schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing contained in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under the Rule 30 of the Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Driver Special Grade	I(One)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various method
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on non- selection basis

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---	---

(12)	(13)	(14)
By Promotion from Grade I Staff Car Drivers with 3 years regular service in Grade I of Staff Car Driver	Group 'C' Departmental Promotion Committee :— 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs—Chairman 2. Under Secretary, (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs—Member 3. Under Secretary, Deptt. of Personnel and Training, North Block, New Delhi —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Driver Grade I	6(Six)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on non- selection basis subject to the passing of following Trade Test Scheme of Trade Test : (1) Must be able to read English numerals and figures. (2) Must have thorough knowledge of Traffic Regulations. (3) Must have good knowledge of Petrol and Diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. (4) Must be able to clear carburetor, plug etc., Test : practical test based on the above.

(12)	(13)	(14)
By promotion of Grade II Staff Car Drivers with six years of service in Grade II or fifteen years of combined service in the Ordinary Grade and Grade II put together are eligible	Group 'C' Departmental Promotion Committee:--- 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs—Chairman 2. Under Secretary, (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs—Member 3. Under Secretary, Deptt. of Personnel & Training, North Block, New Delhi—Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Driver Grade II	6(Six)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000/-	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on non-selection basis subject to the passing of following Trade Test: Scheme of Trade Test : (1) Must be able to read English numerals and figures. (2) Must have good knowledge of Traffic Regulations. (3) Must be able to locate faults and carry out minor running repairs. (4) Must be able to change wheels and to correct inflated tyres. Test :Practical test based on the above.

(12)	(13)	(14)
By promotion of Staff Car Drivers in Ordinary Grade with nine years of regular service in ordinary grade of Staff Car Driver	Group 'C' Departmental Promotion Committee:--- 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs—Chairman 2. Under Secretary, (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs—Member 3. Under Secretary, Deptt. of Personnel & Training, North Block, New Delhi—Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Driver Ordinary Grade	5(Five)* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministeiral	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-	Non-selection	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in case of General Candidates and upto 45 years in case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1: —The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidate from the Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: — Possession of a valid driving license for motor cars. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). — Experience of driving a motorcar for at least 3 years. Desirable: (i) 8th Standard pass. (ii) 3 years service as a Home Guard/ Civil defence volunteer. Note: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Not applicable	By absorption/ deputation/ re-employment failing which by direct recruitment.

930 9707-3

(12)	(13)	(14)
<p>From amongst the regular Despatch Rider (Group 'C') and Group 'D' employees in the Ministry of Home Affairs who possesses a valid Driving licence for motor cars on the basis of driving test to assess competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'D' employees in the other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 8.</p> <p>"For Ex-Servicemen : Deputation/re-employment". The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Chairman 2. Under Secretary, (Secretariat Security Organisation), Ministry of Home Affairs—Member 3. Under Secretary, Deptt. of Personnel & Training, North Block, New Delhi — Member 	<p>Not applicable.</p>

[P. No. A-42012/14/2007/Ad. II]

O. P. SHARMA, Under Secy.

Foot Note : The Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 1995 were published in The Gazette of India vide G. S. R. No. 491 Dated 10th November, 1995.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा. का. नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली दुग्ध योजना सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी (श्रेणी "ग" पद) भर्ती नियम, 1993 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन दुग्ध योजना के अधीन सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, दिल्ली दुग्ध योजना, सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी	24* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	5000-150-8000 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं						
		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे हो या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
(8)		(9)	(10)		(11)	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	---	---

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति:— (1) 90 प्रतिशत कौश क्लर्क, बिक्री क्लर्क और बिक्री सहायक (उत्पादन) में से जिन्होंने इस श्रेणी में आठ वर्ष तक नियमित सेवा की हो। (2) 10 प्रतिशत ड्राइवर-सह-सेल्समैन में से जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कम से कम मैट्रिक की शैक्षिक अर्हता प्राप्त की हो।	श्रेणी "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु) से मिलकर बनेगी :— 1. उपमहाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली दुग्ध योजना —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन-4) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य-पालन विभाग —सदस्य 3. प्रबंधक (वितरण), दिल्ली दुग्ध योजना —सदस्य 4. कार्मिक अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना —सदस्य 5. अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि —सदस्य 6. सहयोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य श्रेणी "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) से मिलकर बनेगी :— 1. अवर सचिव (प्रशासन-4), पशुपालन, डेयरी और मत्स्य-पालन विभाग —अध्यक्ष 2. प्रबंधक (वितरण), दिल्ली दुग्ध योजना —सदस्य 3. कार्मिक अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 3-3/2003-प्रशासन-4]

एम. आर. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)**

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Delhi Milk Scheme Assistant Milk Distribution Officer (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Milk Distribution Officer in Delhi Milk Scheme under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Ministry of Agriculture, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Delhi Milk Scheme, Assistant Milk Distribution Officer (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to the rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Serviced (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Milk Distribution Officer	24* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Hundred percent by promotion.	

9309707-4

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.

(12)	(13)	(14)
Promotion :	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable
(i) Ninety percent from amongst Cash Clerk, Sales Clerk, and Sales Assistant (Products) with eight years regular service in the grade.	(for considering promotion) Consisting of : -- 1. Deputy General Manager (Administration), Delhi Milk Scheme.	-- Chairman,
(ii) Ten percent from amongst Driver-Cum-Salesman with five years regular service in the grade and possessing atleast educational qualifications of Matriculation from a recognized Board or Institution.	2. Under Secretary (Administration-IV), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. 3. Manager (Distribution), Delhi Milk Scheme.	-- Member Member
	4. Personnel Officer Delhi Milk Scheme.	Member
	5. Representatives from minority communities.	Member
	6. Co-opted Schedule Castes/ Schedule tribe member.	Member
	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : --	
	1. Under Secretary (Admn. IV) Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.	-- Chairman
	2. Manager (Distribution) Delhi Milk Scheme	-- Member
	3. Personnel Officer, Delhi Milk Scheme.	-- Member.

[F. No. 3-3/2003-Admn. IV]

M.R. SHARMA, Under Secy.